

मध्य प्रदेश  
ऊर्जा विकास निगम लि०

( 40 प्र० शासन का उपक्रम )  
"ऊर्जा भवन", लिंक रोड-2, शिवाजी नगर, भोपाल, (म. प्र.)  
www.mprrenewable.nic.in. e-mail: ace6.mpuvn1982@gmail.com  
फोन-2767270, 2556566



①

क्रमांक / एफ / यू.वी.एन. / 2018 / आर.एफ.टी. / 01-114 / 11101

दिनांक 08.03.2022

स्पीड-पोस्ट

प्रति,

✓ कुलसचिव,  
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय  
राजा भोज मार्ग, (कोलार रोड),  
भोपाल-462016

U.F. 10/3

विषय : म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल में स्थापित किये गये 100 कि.वा. क्षमता के बैटरी बैंक रहित ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट की प्राप्त हितग्राही अंश राशि में से अनुपयोगित राशि वापसी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र बाबत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख हैं कि निगम द्वारा म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल में दिनांक 15.09.2018 को 100 कि.वा. क्षमता के बैटरी बैंक रहित ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट की स्थापना कराई गई थी, जिसे दिनांक 26.06.2019 को नेट मीटर के माध्यम से ग्रिड से संयोजित भी कराया जा चुका है।

2. उक्त संयंत्र की स्थापना पर कुल परियोजना लागत, अनुदान एवं म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल की अंश राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल (रु.)
1.	कुल लागत	58,29,180.00
2.	केन्द्र अनुदान	13,75,000.00
3.	राज्य अनुदान	11,00,000.00
4.	हितग्राही अंशराशि	33,54,180.00
5.	जमा हितग्राही अंशराशि :- MR No. 18637 Dt. 24.04.2018	33,65,500.00
6.	अनुपयोगित जमा राशि	11,320.00

3. म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल में स्थापित संयंत्र के विरुद्ध व्ययों का अंतिम समायोजन किया जा चुका है। जिसके अनुसार हितग्राही संस्था की रु. 11,320.00 अनुपयोगित राशि निगम के पास शेष है, जिसका चेक क्र. 277119 दिनांक 03.03.2022, पंजाब नेशनल बैंक संलग्न है।

कृपया पावती प्रेषित करने का कष्ट करें।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

**कुलसचिव**  
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय  
राजाभोज मार्ग (कोलार रोड)  
भोपाल

( बृजेश कुमार व्यास )  
अति. कार्यपालन यंत्री

दिनांक

पृ. क्रमांक / एफ / यू.वी.एन. / 2018 / आर.एफ.टी. / 01-114 /

प्रतिलिपि :-

1. जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म.प्र.ऊविनि, भोपाल (म.प्र.)।

अति. कार्यपालन यंत्री

800/R/22  
10/3/22



# मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

क्षेत्रीय केन्द्र, .....

## मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास नि

(MOPRO शासन का उपक्रम  
"ऊर्जा भवन", लिंक  
www.mprrenewable.nic.in.  
फोन-2767270, 2556566

क्रमांक / एफ / यू.वी.एन. / 20

बुक क्रमांक 114 124

रसीद क्रमांक .....  
दिनांक 24/03/2022

रा.गां. बहु. माध्य, अध्ययन केन्द्र

BHOPAL

पाठ्यक्रम का नाम

सौर ऊर्जा संयंत्र

श्री / श्रीमती / कु.

प्रति,

कुलसचिव,  
म.प्र. भोज (मुक्त) वि  
राजा भोज मार्ग, (कं  
भोपाल-462016

विषय : म.प्र. भोज (मुक्त) वि  
बैंक रहित ग्रिड कने  
से अनुपयोगित राशि

उपरोक्त विषयांतर्गत  
दिनांक 15.09.2018 को 100  
पावर प्लांट की स्थापना कर  
से संयोजित भी कराया जा  
2. उक्त संयंत्र की र  
विश्वविद्यालय, भोपाल की अं

क्र.	शुल्क का विवरण, प्रथम / द्वितीय	रुपये
01.	आवेदन पत्र	11,320/-
02.	प्रवेश परीक्षा	
03.	पंजीयन	
04.	अवधान राशि (कॉशन मनी)	
05.	पाठ्य सामग्री	
06.	संपर्क कक्षा शुल्क	
07.	परीक्षा शुल्क, अंकसूची, प्रमाण पत्र	
08.	प्रायोगिक शुल्क	
09.	अनापत्ति प्रमाण-पत्र	
10.	पुनर्मूल्यांकन	
11.	पुनर्गणना	
12.	पुस्तकालय	
13.	दीक्षांत समारोह	
14.	परिचय पत्र	
15.	अन्य	
कुल राशि रुपये (शब्दों में) Eleven thousand three hundred twenty only		11,320/-

क्र.	विवरण	रुपये
1.	कुल	
2.	केन्द्र	
3.	राज्य	
4.	हितग्राही अंशराशि	33,54,180.00
5.	जमा हितग्राही अंशराशि :- MR No. 18637 Dt. 24.04.2018	33,65,500.00
6.	अनुपयोगित जमा राशि	11,320.00

3. म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल में स्थापित संयंत्र के विरुद्ध व्ययों का अंतिम  
समायोजन किया जा चुका है। जिसके अनुसार हितग्राही संस्था की रु. 11,320.00 अनुपयोगित राशि  
निगम के पास शेष है, जिसका चेक क्र. 277119 दिनांक 03.03.2022, पंजाब नेशनल बैंक संलग्न  
है।

कृपया पावती प्रेषित करने का कष्ट करें।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कुलसचिव  
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय  
राजाभोज मार्ग (कोलार रोड)  
भोपाल

(बृजेश कुमार व्यास)  
अति. कार्यपालन यंत्री

18/22  
21/22

म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड  
( म0प्र0 शासन का उपक्रम ) (ISO 9001:2008 प्रमाणित)



3

67

कमांक / ऊविनि / जीसीआरटी-114 / 2020-21 / 680

भोपाल, दिनांक : 14/7/2020

स्पीड-पोस्ट

प्रति,

कुल सचिव,  
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय,  
राजा भोज मार्ग (कोलार रोड),  
भोपाल -462016

विषय :- विश्वविद्यालय परिसर में 100 कि.वा. क्षमता के बैटरी बैंक रहित ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेइक की स्थापना हेतु शेष हितग्राही अंश राशि विमुक्त किये जाने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क. 545 दिनांक 08.07.2020

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहेंगे। निगम द्वारा मेसर्स मुंद्रा सोलर पी. व्ही. लि. के माध्यम से दिनांक 15.09.2018 को विश्वविद्यालय परिसर में 100 कि.वा. क्षमता के बैटरी बैंक रहित ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेइक की स्थापना की गई एवं दिनांक 26.06.2019 को नेट मीटर की स्थापना की जाकर संयंत्र की कमिशनिंग कर दी गई है।

उक्त तिथि से संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत का लाभ निश्चित रूप से विद्युत देयक में परिलक्षित हो रहा होगा। आपके सुलभ संदर्भ हेतु संयंत्र द्वारा उत्पादित विद्युत का ऑन-लाईन विवरण संलग्न है। आप भी आरएमएस के माध्यम से संयंत्र द्वारा उत्पादित की गई विद्युत को ऑन-लाईन देख सकते हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

URL -	<a href="https://europe2.qantum.net">https://europe2.qantum.net</a>
User -	Hardik.der@adani.com
Password -	Solar123

(श्रीकान्त देशमुख)  
अधीक्षण यंत्री

पृ.कमांक / ऊविनि / जीसीआरटी-114 / 2020-21 / 681

भोपाल, दिनांक : 14/7/2020

प्रतिलिपि :-

जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि0, भोपाल (शहर)।

UE

6.8.20

कुलसचिव  
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय  
राजाभोज मार्ग (कोलार रोड)

अधीक्षण यंत्री

11/8/20  
18/20



# M.P.MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN COMPANY LIMITED

(Government of M. P. Undertaking)

Regd. Office: Nishtha Parisar, Govindpura Bhopal 462023

☎ 0755-2602033-34 & 35, Fax: 2589821 Ext-200, Website www.mpcz.co.in

CIN NUMBER: U40109MP2002SGC015119

## Solar Roof Top Survey Form

S.No	Consumer Detail		Remark
1.	Application No	MPCZ1077411	OK
2.	IVRS/Customer ID	3724904111	OK
3.	Name of Applicant	THE REGISTRAR M.P.(BHOJ)	OK
4.	Address of Applicant	OPEN UNIVERSITY MPBOUCAMPUS, VILLAGE DAMKHEDA, KOLAR ROAD, BHOPAL(P.N.AAAJMI277D),	OK
5.	Circle	City Circle Bhopal	OK
6.	Division	Bhopal City (West)	OK
7.	DC to Apply	Shahpura Zone	OK
8.	Land Mark	chunabhatti	OK
9.	Mobile Number	9424704035	OK
10.	Connection Type	PERMANENT	OK
11.	Sanction Load (in KW)	180	OK
12.	Contract Demand(in KVA)	180	OK
13.	Connection Category	HT	OK
14.	Type Of Renewable Energy System	solarpv	OK
15.	Plant Capacity AT AC(KW)	100	OK
16.	Proposed Connectivity Voltage	HT	OK
17.	Suitable Area(Sq.Mt) for Installation	38144	OK
18.	Vendor	mudra solar pv limited	OK

✓ Consumer's Signature

कुलसचिव

म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय  
भोपाल

MANAGER

HTM. WEST  
MPMKVVCL. BHOPAL

कुलसचिव  
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय  
राजाभोज नगर (कोलार रोड)  
भोपाल

(5) (46)

**Net Metering Inter Connection Agreement for enhancement Capacity**

1. This Agreement is made and entered into at Bhopal on this (date).....11.....day of (month) June..... year.....2019  
between Dr. H.S. Tripathi..... the Registrar M.P Bhoj Open University  
MPBOUCAMPUS, Village Damkheda kolar road Bhopal as first party AND Distribution Licensee Madhya Pradesh-  
Madhya-Kshetra-Vidyut-Vitran-Company Ltd. (here in after called as Discom) and represented by  
Shri A.P. Singh..... (General Manager (City Circle) MPMKVCL, Bhopal and having its registered office at  
Nistha Parisar, Govindpura, Bhopal as second party of the agreement. And whereas, the Discom agrees to  
provide grid connectivity to the Eligible Consumer for injection of the electricity generated from his renewable  
energy plan to capacity **100 kilowatt** in to the power system of Discom, as per conditions of this agreement,  
and MPERC (Net Metering) Regulations, 2015 issued by Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission,  
and Madhya Pradesh Policy for Decentralized Renewable Energy Systems, 2016. Both the parties hereby agree  
to as follows:

**2. Technical and Interconnection Requirements**

2.1 The Eligible Consumer agrees that his renewable energy generation plant and net metering system will conform to the standards and requirements specified in MPERC (Net Metering) Regulations, 2015 and Madhya Pradesh Policy for Decentralized Renewable Energy Systems, 2016, al also the following Regulations and codes, as amended from time to time:-

1. CEA's (Technical Standards for connectivity of the Distributed Generating Resources) Regulations, 2013
2. Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006
3. Central Electricity Authority (Measures relating to safety and electric supply) Regulations, 2010
4. MPERC Supply Code Regulations, 2007

2.2 Eligible Consumer agrees that he has installed or will install, prior to connection of Renewable Energy system to Discom's distribution system, an isolation device (both automatic and inbuilt within inverter and external manual relays) and agrees for the Discom to have access to the renewable energy system, if required for repair & maintenance of the distribution system.

2.3 Eligible Consumer agrees that in case of a power outage on Discom's system, Renewable Energy system will disconnect/isolate automatically and his plant will not inject power into Licensee's distribution system.

2.4 All the equipment connected to distribution system shall be compliant with relevant International (IEEE/IEC) or Indian standards (BIS) and installations of electrical equipment must comply with Central Electricity Authority (Measures of Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010.

2.5 Eligible Consumer agrees that licensee will specify the interface/interconnection point and metering point.

2.6 Eligible Consumer and licensee agree to comply with the relevant CEA regulations and MPERC (Metering) Regulations, 2007 in respect of operation and maintenance of the plant, drawing and diagrams, site responsibility schedule, harmonics, synchronization, voltage, frequency, flicker, etc.

2.7 Due to Discom's obligation to maintain a safe and reliable distribution system, Eligible Consumer agrees that, if it is determined by the Discom that Eligible Consumer's Renewable Energy system either causes damage to and/or produces adverse effects affecting other consumers or Discom's assets, Eligible Consumer will have to disconnect Renewable Energy system immediately from the distribution system upon direction from the Discom and correct the problem at his own expense prior to a reconnection. ..2..

//2//

6

215

2.8 The consumer shall be solely responsible for any accident to human being/animals whatsoever (fatal/non-fatal/departmental/non-departmental) that may occur due to back feeding from the SPG plant when the grid supply is off. The distribution licensee reserves the right to disconnect the consumer's installation at any time in the event of such exigencies to prevent accident or damage to man and material.

### 3. Clearances and Approvals

3.1 The Eligible Consumer shall obtain all the statutory & necessary approvals and clearances be for connecting the Renewable Energy system to the distribution system.

### 4. Access and Disconnection

4.1 Discom shall have access to metering equipment and disconnecting means of the renewable energy system, both automatic and manual, at all times.

4.2 In emergency or outage situation, where there is no access to the disconnecting means, both automatic and manual, such as a switch or breaker, Discom may disconnect service to the premises of the Eligible Consumer.

### 5. Liabilities

5.1 Eligible Consumer and Discom shall indemnify each other for damages or adverse effects from either party's negligence or intentional misconduct in the connection and operation of Renewable Energy system or Discom's distribution system.

5.2 Discom and Eligible Consumer shall not be liable to each other for any loss of profits or revenues, business interruption losses, loss of contract or loss of goodwill, or for indirect, consequential, incidental or special damages, including, but not limited to, punitive or exemplary damages, whether any of the said liability, loss or damages arise in contract, or otherwise.

5.3 Discom shall not be liable for delivery or realization by Eligible Consumer for any fiscal or other incentive provided by the Central/State Government beyond the scope specified by the Commission in its relevant Order

5.4 The Discom may consider the quantum of electricity generation produced in the renewable energy system under net metering arrangement towards RPO. (Applicable only in case of Eligible Consumer who is not defined as an Obligated Entity).

5.5 The proceeds from CDM benefits shall be retained by the Discom.

### 6. Commercial Settlement

6.1 All the commercial settlement under this agreement shall follow the Net Metering Regulations, 2015 issued by MPERC.

6.2 If there is surplus power generated after fulfilling captive consumption requirement at the end of the settlement period, the surplus power shall be compensated as per MPERC Net Metering Regulations, 2015 and amendments thereof. The unadjusted net credited units of electricity, at the end of each 'Settlement period', shall be purchased by the Distribution Licensee at its Average Pooled Cost of Power Purchase, as approved by the Commission for that year. The Distribution Licensee shall provide credit equivalent to the amount payable in the immediately succeeding Billing Cycle, and, if any credit still remains, then in the subsequent Billing Cycle(s)

कुलसचिव  
विश्वविद्यालय

//2//

6

215

2.8 The consumer shall be solely responsible for any accident to human being/animals whatsoever (fatal/non-fatal/departmental/non-departmental) that may occur due to back feeding from the SPG plant when the grid supply is off. The distribution licensee reserves the right to disconnect the consumer's installation at any time in the event of such exigencies to prevent accident or damage to man and material.

Handwritten initials and marks.

### 3. Clearances and Approvals

3.1 The Eligible Consumer shall obtain all the statutory & necessary approvals and clearances be for connecting the Renewable Energy system to the distribution system.

### 4. Access and Disconnection

4.1 Discom shall have access to metering equipment and disconnecting means of the renewable energy system, both automatic and manual, at all times.

4.2 In emergency or outage situation, where there is no access to the disconnecting means, both automatic and manual, such as a switch or breaker, Discom may disconnect service to the premises of the Eligible Consumer.

Handwritten initials and marks.

### 5. Liabilities

5.1 Eligible Consumer and Discom shall indemnify each other for damages or adverse effects from either party's negligence or intentional misconduct in the connection and operation of Renewable Energy system or Discom's distribution system.

5.2 Discom and Eligible Consumer shall not be liable to each other for any loss of profits or revenues, business interruption losses, loss of contract or loss of goodwill, or for indirect, consequential, incidental or special damages, including, but not limited to, punitive or exemplary damages, whether any of the said liability, loss or damages arise in contract, or otherwise.

5.3 Discom shall not be liable for delivery or realization by Eligible Consumer for any fiscal or other incentive provided by the Central/State Government beyond the scope specified by the Commission in its relevant Order

5.4 The Discom may consider the quantum of electricity generation produced in the renewable energy system under net metering arrangement towards RPO. (Applicable only in case of Eligible Consumer who is not defined as an Obligated Entity).

5.5 The proceeds from CDM benefits shall be retained by the Discom.

### 6. Commercial Settlement

6.1 All the commercial settlement under this agreement shall follow the Net Metering Regulations, 2015 issued by MPERC.

6.2 If there is surplus power generated after fulfilling captive consumption requirement at the end of the settlement period, the surplus power shall be compensated as per MPERC Net Metering Regulations, 2015 and amendments thereof. The unadjusted net credited units of electricity, at the end of each 'Settlement period', shall be purchased by the Distribution Licensee at its Average Pooled Cost of Power Purchase, as approved by the Commission for that year. The Distribution Licensee shall provide credit equivalent to the amount payable in the immediately succeeding Billing Cycle, and, if any credit still remains, then in the

Handwritten initials and marks.

कुलसचिव  
विद्युत विभाग

7. Connection Costs

7.1 The Eligible Consumer shall be a r all costs related to setting up of renewable energy system including meter in gand inter connection costs. The Eligible Consumer agrees to pay the actual cost of modifications and upgrades to the service line required to connect Renewable Energy system to the grid in case it is required.

8. Connection Costs

8.1 The Eligible Consumer can terminate agreement at any time by providing Discom with 90 days prior notice.

8.2 Discom has the right to terminate Agreement on 30 days prior written notice, if Eligible Consumer commits breach of any of the terms of this Agreement or MPERC (Net Metering) Regulations, 2015 issued by the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission or Madhya Pradesh Policy for Decentralized Renewable Energy Systems, 2016 and does not remedy the breach within 30 days of receiving written notice from Discom of the breach.

8.3 Eligible Consumer shall upon termination of this Agreement, disconnect the Renewable Energy system from Discom's distribution system in a timely manner and to Discom's satisfaction.

In witness, whereof, Mr./Ms. Dr. H. S. Tripathi the Registrar M.P Bhoj Open University MPBOUCAMPUS, Village Damkheda kolar road Bhopal and Mr. A. P. Singh General Manager(City Circle) on behalf of City Circle, M.P.M.K.V.V.Co.Ltd., Bhopal(Discom) sign this agreement in two originals.

The Registrar M.P Bhoj Open University, MPBOUCAMPUS, Village Damkheda Kolar Road Bhopal

Name Dr. H. S. Tripathi

Address

कुलसचिव

म.प्र.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

भोपाल

Signature

Witness 1

Witness 2

Dr. Praehant Solanki Computer programmer

Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Co. Ltd. Bhopal

Name

Designation

Signature

Witness 1

Witness 2

General Manager(City Circle) MPMKVCL, BHOPAL

Dy. General Manager O/o General Manager (City Circle) M.P.M.K.V.V. Co. Ltd., Bhopal

O/o General Manager (City Circle) M.P.M.K.V.V. Co. Ltd. Bhopal म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय राजाभोज मार्ग (कोलार रोड) भोपाल





MADHYA PRADESH MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN CO.LTD.  
OFFICE OF THE GENERAL MANAGER (CITY CIRCLE)  
SULTANIA ROAD , NEAR ROYAL MARKET BHOPAL

E-mail: secitybhopal@gmail.com, 0755- 2678225, FAX – 2678225

No./GM/CC/Net Metering/02-/19 2366

Bhopal, Date: 31.5.19

To:

The Registrar,  
M.P Bhoj Open University MPBOUCAMPUS,  
Village Damkheda, Kolar Road  
Bhopal (M.P)

Sub.: Sanction of net metering and grid connectivity The Registrar, M.P Bhoj Open University MPBOUCAMPUS Village Damkheda, Kolar Road Bhopal (M.P)

Ref: 1.The CGM(Comm)O/o MD(CZ)Bhopal letter No./MD/MK/Comm//F-221/R-32/33 dated 10.04.2017

2.Your application No MPCZ1077411

3.The DGM(HTM West)letter No./76 on dated 15.05.19

With reference to your above mentioned application, approval is here with accorded for install in renewable energy system of **100kW** in your premises at of The Registrar, M.P Bhoj Open University MPBOUCAMPUS Village Damkheda, Kolar Road Bhopal (M.P) as per the following terms and conditions:

1. You are advised to select an empanelled system installer of your choice to install the renewable energy system. The installer should have prior experience in design, supply and installation of renewable energy system. A list of empanelled installers of grid-connected PV systems by MNRE (Ministry of New and Renewable Energy, Government of India) / Madhya Pradesh UrjaVikas Nigam Limited (MPUVN) is a good reference point for identifying an installer.
2. You must select an inverter only from MNRE or MPUVN approved and empanelled manufacturers list. The vendors list of inverter manufacturers can be downloaded from MNRE / MPUVN website. You must submit the copy of Test Certificates for having complied with relevant IEC standards of the selected model along with work completion report.
3. All components of renewable energy system must comply with applicable IS/IEC standards. Please find attached a list of standards to be complied with attached with this approval letter.
4. In case of any changes required at your premises due to this proposed installation, these shall be performed by you at your own cost.

---2---

*[Handwritten Signature]*  
कुलसचिव

म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय  
राजाभोज मार्ग (कोलार रोड)  
भोपाल

UE

158/R/19  
14-6-19


//2//

- 6. The grid connectivity of the system shall be in accordance with the MPERC 'Net Metering Regulations 2015' dated 14.10.2015 and any amendments thereof from time to time and shall conform to requirements of Government of Madhya Pradesh's Policy for Net - Metered Renewable Energy Applications,2016.
- 6. Net meter shall be purchased from DISCOM/ MPUVN approved vendors (as per standards of MPERC/CEA and subsequent amendments thereof) and shall be fixed at the meter point, after getting successfully tested from Discom's or their authorized laboratory at the cost of Eligible Consumer.
- 7. You shall also provide check meters when the renewable energy system capacity is higher than 250kWp.
- 8. All the safety measures and standards of the installed system must comply with requirements as stated in MPERC/CEA Regulations and all standards referred to in those regulations.
- 9. Please submit the following documents after installation of Renewable energy system:
  - A) Work Completion report in provided format
  - B) Test Certificate of Net meter from Discom laboratory
  - C) Inspection Report by Electrical Inspector, Government of Madhya Pradesh (as notified by the State Govt.), wherever applicable, i.e renewable energy systems having capacity above 100kW.
  - D) Copy of signed Net Metering Interconnection Agreement on Rs. 500/- non-judicial stamp paper with Discom

10. The Annexure-I,II,III,IV,IX are enclosed herewith which are also available in the M.P. Policy for Decentralized Renewable Energy booklet 2016 page No.87 to 94. This approval is valid for 180 days from the date of this letter and the renewable energy system is to be commissioned with in this period, progress of system installation shall be monitored by MPUVN authorized officer / Agency and, if adequate progress is not observed MPUVN may recommend cancellation of the approval to DISCOM.

You should download the guidelines, the procedures and all technical specifications, standards and other requirements of the solar rooftop system from M.P. Policy for Decentralized renewable energy 2016 (link to web site of documents download is renewable.nic.in).

Enclosure : Annexure I Annexure II , Annexure III & Annexure IV,IX



General Manager(City Circle)  
M.P.M.K.V.V.Co.Ltd.,Bhopal

Copy to:

*otc*

1. The CGM(Comm)O/o MD(CZ)MPMKVV Co.Ltd.,Bhopal
2. The CGM(BR)MPMKVV Co.Ltd.,Bhopal
3. The DGM(HTM/West/City Construction)MPMKVV Co.Ltd.,Bhopal
4. The Account Officer(City Circle)MPMKVV Co.Ltd.,Bhopal
5. Work Section City Circle, Bhopal


*otc*

*Sd -*  
General Manager(City Circle)

*Document*  
**कुलसचिव**  
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय  
राजाभोज नार्म (कोलार रोड)  
भोपाल



### Certificate of Stamp Duty



#### E-Stamp Details

**E-Stamp Code** 01010503062019012897  
**Total E-Stamp Amount** 500  
**Govt. Stamp Duty (Rs.)** 500  
**Janpad Duty (Rs.)** 0  
**Exempted Amount (Rs.)** 0  
**Municipality Duty (Rs.)** 0  
**Upkar Amount (Rs.)** 0  
**E-Stamp Type** NON-JUDICIAL  
**Issue Date & Time** 03/06/2019 18:30:23  
**Service Provider or Issuer Details** rajesh asthana/SP010541705201900015  
**SP/SRO/DRO/HO Details** SHOP NO.-1 MIG -18 E-6 ARERA COLONY BHOPAL HUZUR BHOPAL

#### Deed Details

**Deed Type** Agreement or Memorandum of an agreement  
**Deed Instrument** If not otherwise provided for- Five hundred rupees.  
**Purpose** AGREEMENT

#### First Party Details

**Organization Name** GM CITY CIRCLE MPMKVCL BHOPAL  
**Address** BHOPAL BHOPAL Madhya Pradesh INDIA  
**Number of Persons** 1

#### Second Party Details

**Organization Name** MP BHOJ OPEN UNIVERSITY BHOPAL  
**Address** BHOPAL BHOPAL Madhya Pradesh INDIA  
**Number of Persons** 1

#### Agreement




Digitally signed by **General Manager (City Circle)**  
**MPMKVCL, BHOPAL**

Digitally signed by **कुलसचिव**  
**म.प्र.भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय**  
**भोपाल**

Digitally signed by **RAJESH**  
**STHANA**  
 Date: 2019.06.03 18:32:23  
 IT

*Rajesh*

**कुलसचिव**  
**म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय**  
**राजाभोज नगर (कोलार रोड)**  
**भोपाल**



क्रमांक/ऊविनि/जीसीआरटी-114/2018-19/ 1256

दिनांक 21-6-18

स्पीड-पोस्ट

प्रति,

✓ कुल सचिव,  
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय,  
राजा भोज मार्ग (कोलार रोड),  
भोपाल -462016

विषय :- विश्वविद्यालय परिसर में 100 कि.वा. क्षमता के बैटरी बैंक रहित ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेइक की स्थापना हेतु शेष हितग्राही अंश राशि विमुक्त किये जाने बाबत।

- संदर्भ :-1. इस कार्यालय का पत्र क्र. 128 दिनांक 11.04.2017  
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 4458 दिनांक 26.02.2018  
3. आपका पत्र क्र. 341 दिनांक 20.04.2018

\*\*\*\*\*

उपरोक्त विषयांतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में 100 कि.वा. क्षमता के बैटरी बैंक रहित ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेइक की स्थापना हेतु निगम द्वारा माह अप्रैल 2017 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली की तत्समय लागू बैंच मार्क लागत पर गणित अनुदान उपरांत हितग्राही अंश सूचित किया गया था। विश्वविद्यालय द्वारा माह अप्रैल 2018 में हितग्राही अंश राशि रु. 33,65,500.00 विमुक्त की गई।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए बैंच मार्क लागत पुनरीक्षित की गई हैं। पुनरीक्षित बैंच मार्क लागत में पूर्व में सूचित बैंच मार्क लागत की तुलना में कमी की गई हैं। जिसके परिणामस्वरूप अनुदान में कमी आई हैं। इस संबंध में निगम द्वारा पत्र क्र. 4458 दिनांक 26.02.2018 के माध्यम से भी सूचित किया गया था कि अनुदान की कमी होने की स्थिति में अन्तर की राशि विश्वविद्यालय द्वारा देय होगी।

विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित 100 कि.वा. क्षमता के संयंत्र हेतु केन्द्र एवं राज्यानुदान में कमी होने के कारण हितग्राही अंश में रु. 2,78,485.00 की वृद्धि हुयी है।


हितग्राही अंश में हुयी उक्त वृद्धि की स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति की प्रत्याशा में निगम द्वारा संयंत्र स्थापना हेतु मेसर्स मुंद्रा सोलर पी.व्ही. लि. अहमदाबाद को कार्यादेश जारी कर दिया गया है। जिसकी पूर्णता दिनांक 21.09.2018 तक लक्षित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि हितग्राही अंश में बढ़ोत्तरी की राशि रु. 2,78,485.00 विमुक्त करने का कष्ट करेंगे।

(श्रीकान्त देशमुख)  
अधीक्षण यंत्री

प्रतिलिपि :-

जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम लि0, भोपाल (शहर)।

U.E.   
कुलसचिव  
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय  
राजा भोज मार्ग (कोलार रोड)  
भोपाल

अधीक्षण यंत्री



RAJABHOJ University - Energy Generation

13<sub>9</sub>

Feb-20	
Date	kWh/kWp
01-02-20	
02-02-20	
03-02-20	
04-02-20	
05-02-20	
06-02-20	
07-02-20	
08-02-20	
09-02-20	
10-02-20	
11-02-20	
12-02-20	0.55
13-02-20	1.98
14-02-20	
15-02-20	0.53
16-02-20	4.26
17-02-20	1.16
18-02-20	
19-02-20	
20-02-20	
21-02-20	
22-02-20	3.13
23-02-20	4.2
24-02-20	4.75
25-02-20	4.93
26-02-20	5.08
27-02-20	4.98
28-02-20	4.71
29-02-20	3.31

Mar-20	
Date	kWh/kWp
01-03-20	4.4
02-03-20	4.62
03-03-20	5.48
04-03-20	4.8
05-03-20	4.59
06-03-20	4.95
07-03-20	5.66
08-03-20	5.7
09-03-20	4.84
10-03-20	3.14
11-03-20	5.68
12-03-20	0.04
13-03-20	4.53
14-03-20	5.76
15-03-20	5.09
16-03-20	5.4
17-03-20	5.38
18-03-20	5.03
19-03-20	4.97
20-03-20	3.57
21-03-20	5.43
22-03-20	5.09
23-03-20	4.68
24-03-20	4.78
25-03-20	3.73
26-03-20	4.24
27-03-20	2.14
28-03-20	4.55
29-03-20	5.56
30-03-20	5.5
31-03-20	5.21

Apr-20	
Date	kWh/kWp
01-04-20	5.55
02-04-20	5.53
03-04-20	5.55
04-04-20	5.36
05-04-20	5.41
06-04-20	4.24
07-04-20	5.08
08-04-20	5.28
09-04-20	5.26
10-04-20	4.94
11-04-20	4.7
12-04-20	4.89
13-04-20	5.33
14-04-20	4.76
15-04-20	4.38
16-04-20	4.85
17-04-20	4.66
18-04-20	3.13
19-04-20	4.79
20-04-20	4.66
21-04-20	4.96
22-04-20	4.76
23-04-20	4.56
24-04-20	4.43
25-04-20	5.17
26-04-20	4.89
27-04-20	1.9
28-04-20	4.73
29-04-20	4.71
30-04-20	3.69

May-20	
Date	kWh/kWp
01-05-20	4.6
02-05-20	4.93
03-05-20	5.1
04-05-20	4.58
05-05-20	5.01
06-05-20	4.47
07-05-20	4.33
08-05-20	4.49
09-05-20	4.38
10-05-20	4.53
11-05-20	4.24
12-05-20	4.93
13-05-20	4.56
14-05-20	4.62
15-05-20	4.23
16-05-20	4.4
17-05-20	4.6
18-05-20	4.84
19-05-20	4.41
20-05-20	5.27
21-05-20	5.16
22-05-20	5.02
23-05-20	4.96
24-05-20	5
25-05-20	4.99
26-05-20	4.37
27-05-20	2.89
28-05-20	5.01
29-05-20	4.91
30-05-20	4.64
31-05-20	3.59

June-20	
Date	kWh/kWp
01-06-20	3.16
02-06-20	2.35
03-06-20	2.17
04-06-20	0.9
05-06-20	1.39
06-06-20	4.84
07-06-20	4.58
08-06-20	4.42
09-06-20	4.88
10-06-20	4.85
11-06-20	4.32
12-06-20	4.32
13-06-20	4.18
14-06-20	3.22
15-06-20	3.13
16-06-20	3.22
17-06-20	3.65
18-06-20	4.62
19-06-20	4.34
20-06-20	1.83
21-06-20	3.58
22-06-20	4.73
23-06-20	1.63
24-06-20	3.62
25-06-20	3.71
26-06-20	2.35
27-06-20	3.64
28-06-20	4.3
29-06-20	4.71
30-06-20	4.73

Date	kWh/kWp
01-07-20	4.54
02-07-20	3.76
03-07-20	2.03
04-07-20	4.31
05-07-20	1.32
06-07-20	3.28
07-07-20	3.25
08-07-20	3.7
09-07-20	4.54
10-07-20	4.42
11-07-20	2.68
12-07-20	2.93
13-07-20	4.12
14-07-20	2.41

कुलसचिव  
 म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय  
 राजाभोज नर्ना (कोलार रोड)  
 भोपाल